



दिल्ली सरकार

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0,
12वां तल, बहु-मंजिला भवन, इंद्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली: 110002

☎ 23317926, 23724561, 23317520, फ़ैक्स 23766924

Toll Free Complaint No. 1800 11 0093

वेबसाइट: <http://pwd.delhigovt.nic.in>

ई-मेल: pwdhqdelhi@gmail.com/dppwdhqdelhi@gmail.com



सं0:प्रमुख अभि./निदेशक/कार्य/डीएफसी/लोनिवि/2017/5093

दिनांक:24.10.2017

सेवा में

1. प्रधान मुख्य अभियंता (अनुरक्षण), लोनिवि, 12वाँ तल, एम.एस.ओ.भवन, नईदिल्ली।
2. प्रधान मुख्य अभियंता (परियोजनाएं), लोनिवि, 9वाँ तल, एम.एस.ओ.भवन, नईदिल्ली।
3. मुख्य अभियंता (परियोजनाएं), लोनिवि, 9वाँ तल, एम.एस.ओ.भवन, नईदिल्ली।
4. मुख्य अभियंता(उत्तर), लो.नि.वि, 5वां तल, बहु-मंजिलाभवन, इंद्रप्रस्थसंपदा, नई दिल्ली-02।
5. मुख्य अभियंता(दक्षिण), लो.नि.वि, 7वां तल, बहु-मंजिलाभवन, इंद्रप्रस्थसंपदा, नई दिल्ली-02।
6. मुख्य अभियंता(पूर्व), लो.नि.वि, तीसरातल, बहु-मंजिलाभवन, इंद्रप्रस्थसंपदा, नई दिल्ली-02।
7. मुख्य अभियंता(स्वास्थ्य)अनुरक्षण,लो.नि.वि,दूसरातल,बहु-मंजिलाभवन,इंद्रप्रस्थसंपदा, नई दिल्ली-02।
8. मुख्य परियोजना प्रबंधक(शिक्षा)अनुरक्षण, लो.नि.वि, पहलातल, बहु-मंजिलाभवन, नई दिल्ली-02।
9. मुख्य परियोजनाप्रबंधक(एफ-1),लो.नि.वि, मुकरबाचौक, जी.टी.करनालरोड़, दिल्ली-33।
10. मुख्य परियोजनाप्रबंधक(एफ-2), लो.नि.वि, सरायंकाले खां, रिंगरोड़, दिल्ली-13।
11. मुख्य परियोजनाप्रबंधक(एफ-5), लो.नि.वि, भैरोरोड़, टीजंकशन, प्रगतिपावरस्टेशन, नई दिल्ली-02।
12. मुख्य परियोजना प्रबंधक(स्वास्थ्य),लोनिवि,6वां तल, एमएसओ भवन,इंद्रप्रस्थसंपदा,नई दिल्ली-02।
13. मुख्य परियोजनाप्रबंधक(गृह),लो.नि.वि, 13वां तल, एमएसओ भवन, इंद्रप्रस्थसंपदा, नई दिल्ली-02।
14. मुख्य परियोजनाप्रबंधक(शिक्षा),लोनिवि,दूसरा तल,एमएसओ भवन,इंद्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-02।
15. मुख्य परियोजनाप्रबंधक(अन्य),लो.नि.वि, 13वांतल, एमएसओ भवन,इंद्रप्रस्थसंपदा, नई दिल्ली-02।
16. मुख्य परियोजना प्रबंधक(सीसीटीवी),लोनिवि,11वांतल,एमएसओ भवन,इंद्रप्रस्थसंपदा,नई दिल्ली-02।

विषय:-Delegation of Financial Powers to PWD Officers.

संदर्भ:-उपनिदेशक(टैक्निकल), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का पत्र संख्या 14011/9/
2011/पीएमसी / एनसीआरपीवी दिनांक 26.09.2017


Please find enclosed above cited office order issued by Finance Department, GNCTD vide which Financial Powers for undertaking capital works had been delegated to Engineering Officers of PWD with following conditions:-

- (i) that the expenditure does not exceed the budget allocation.
- (ii) that the expenditure is incurred for the purpose for which funds have been provided and the codal formalities are followed.
- (iii) that the sanctioning authorities shall consider/ approve the proposals as per standard norms and parameters and guidelines for Capital works issued by GNCTD of Delhi.

In this regard, it is requested that the Financial Discipline in regard of issuing Administrative Approval & Estimate Sanction and undertaking capital works must be complied in spirit.

यह पत्र निदेशक प्रमुख अभियंता की अनुमति से जारी किया जाता है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।


(संजीव रस्तोगी)

निदेशक(कार्य एवं स्थापना)

Dated: 9.10.2017

12.10.2017

ORDER


In exercise of powers conferred under the Rule-13 of Delegation of Financial Power Rules, 1978, the Lieutenant Governor, Delhi is pleased to delegate the following financial powers to the Engineering Officers of PWD, Delhi for undertaking Capital Works;

SN	Competent Authority	Estimated Cost
1	Executive Engineer	upto ₹30.00 lakh
2	Superintending Engineer	Above ₹30.00 lakh - upto ₹1.00 crore
3	Chief Engineer/HOD	Above ₹1.00 _{cr} upto ₹2.00 crore
4	Pr. Chief Engineer/ Addll. Director General	Above ₹2.00 _{cr} upto ₹4.00 crore
5	Engineer-in-Chief/ Spl. Director General	Above ₹4.00 _{cr} upto ₹5.00 crore

02. The delegated financial powers will be exercised by the Engineers of PWD, Delhi subject to the following conditions:-

- i. that the expenditure does not exceed the budget allocation
- ii. that the expenditure is incurred for the purpose for which funds have been provided and the codal formalities are followed
- iii. that the sanctioning authorities shall consider/approve the proposals as per standard norms and parameters and guidelines for Capital works issued by GNCT of Delhi.

03. This order comes into force with immediate effect.


(S.N. SAHAI)
Pr. Secretary (Finance)

1. All Administrative Secretaries, GNCT of Delhi
2. All Head of the Departments, GNCT of Delhi

F.8(2)/2007-AC/Finance/01295543/JSFINA/1148-66 Dated: 12-10-2017

Copy for information to:

3. Pr. Secretary to the H.E. Lt. Governor, Delhi
4. Pr. Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Delhi
5. Secretary to Hon'ble Dy. Chief Minister/Minister(Finance), Delhi
6. Secretaries to Hon'ble Ministers, GNCT of Delhi
7. Staff Officer to Chief Secretary, GNCT of Delhi
8. Pr. Secretary (Finance/Planning), Delhi Secretariat, New Delhi.
9. Spl. Secretary (Finance), Delhi Secretariat, New Delhi.

P.T.O.